

# शीत-काल में अग्नि से रक्षा-जाँच तालिका

Fact Sheet 13 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Hindi

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## यथार्थ

पिछले साल एन-एस-डबल्यू में 4339 घर आग की लपेट में आये, जिनमें कम से कम 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 573 अन्य घायल हुए। इनमें से लगभग 1300 यानि 30 प्रतिशत घटनायें सर्दी के मौसम में घटीं।  
(आंकड़े 04/06/04 के अनुसार)

## क्या आपका घर शीत-कालीन आग से सुरक्षित हैं?

हम आपके घरों को शीत कालीन आग से सुरक्षित रखने में सहायता करने के लिए यह बचाव जाँच तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। आप व आपके घर में रहने वाले हरेक व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षा सलाह का अनुसरण करना चाहिए:

- सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने सम्पूर्ण घर में उचित संख्या में आग के खतरे की घण्टी (**smoke alarm**) लगायें तथा समय-समय पर उनकी जाँच करें।
- दृढ़ता से जाँच लें कि आप व आपके परिवार को, प्रत्येक कमरे से निकलने के लिए दो सुरक्षित तरीकों को जानकारी है।
- अगर आग लग जायें तो उससे बचने के लिए 'लिखित बचाव योजना' बनायें तथा उसका नियमित अभ्यास करें।
- बिना किसी देखरेख के भोजन आग पर पकने के लिए कभी भी न छोड़ें।
- अगर आपके घर में अंतिका (**fire place**) है तो ध्यान रखें कि चिमनी साफ हो।
- अगर आपके घर में अंतिका है तो इस्तमाल करते समय उसके आगे हमेशा बचाव के लिए ओट (**screen**) रखें।
- बिजली के कम्बल की खराबी तथा कटी व मुड़ी हुई तार को पलंग पर लगाने से पहले जाँच कर लें।
- ध्यान रखें कि एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाने वाले पोरतअबले, हीटर पर्दों, मेज़पोश तथा बिस्तर दूर हो।
- गीले कपड़ों को हीटर व अंतिका से कम से कम एक मीटर की दूरी पर रखें तथा किसी की देखरेख के बिना अकेला न छोड़ें।
- अगर आप कपड़े सुखाने वाले ड्रायर का प्रयोग करते हैं तो हर प्रयोग के बाद उसमें लगे रोयों को साफ कर दीजियें।
- एक विद्युत केन्द्र (**power point**) पर एक ही उपकरण लगायें तथा प्रयोग के बाद खटका बन्द कर दें।
- सोने जाने से पहले हमेशा मोमबत्ती या अन्य खुली आग बुझा दें।
- मोमबत्ती या अन्य खुली आग का हमेशा ध्यान से प्रयोग करें।
- माचिस या लाईटर को छोटे बच्चों की पहुँच से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्नि शामक केन्द्र या अग्नि नियंत्रण केन्द्र से सम्पर्क करें।

अथवा देखें: [www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au) or [www.esa.act.gov.au](http://www.esa.act.gov.au)

## शीतकालीन अग्नि से बचाव के सुझाव

- बिजली के कम्बल को जाँचने के लिए उसे पलंग के ऊपर सीधा करके बिछा दें। प्रयोग से पहले, उसकी जाँच के लिए, उसके खटके को पाँच मिनट के लिए खोले व देख लें कि वह ठीक-ठाक है कि नहीं।
- एक ही स्थान पर लगने वाले हीटर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ही लगावाने चाहिए।
- बिजली, गैस अथवा लकड़ी के हीटर को वार्षिक जाँच की आवश्यकता हो सकती है।
- बिजली के सुरक्षा खटके (**electrical safety switch**) लगायें तथा बताई गई स्तर के फ्युज़ का ही केवल प्रयोग करें।
- अगर सम्भव हो तो रसोई में अग्नि शमित्र (**fire extinguisher**) अथवा अग्नि बुझाने वाला कम्बल, निकास द्वार के पास रखें।
- जलती हुई मोमबत्ती या अन्य खुली आग को कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें।

आपातकाल में 000 नम्बर पर फोन कीजिए